



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 41

जनवरी 02, 2026

संख्या 1

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	दिसंबर 27	दिसंबर 19	दिसंबर 26	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3525532	3876496	3888775	12279	363243
1.1 संचलन में नोट	3525519	3876484	3888762	12278	363243
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	12	13	1	-1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	100	101	0	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	939428	796805	723173	-73632	-216255
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8496	6749	6586	-163	-1910
2.6 अन्य बैंक	52336	41507	41188	-318	-11148
2.7 अन्य	531371	725010	810697	85687	279326
3 अन्य देयताएं	1905453	2729460	2812972	83512	907519
कुल देयताएं / आस्तियां	6962759	8176169	8283534	107365	1320775
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4758116	5028257	5056983	28725	298866
2 सोना	566843	986292	1018151	31859	451308
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1253916	1826827	1831927	5101	578012
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	21841	32271	23359	-8911	1518
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	244697	147555	197894	50339	-46803
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	95648	125575	124609	-966	28961
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	19633	27329	28547	1218	8915

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	दिसंबर 26, 2025		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
	को		सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6258848	696610	62492	3293	546707	28284	781979	56332
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5027961	559612	28532	184	177127	-7946	306913	7691
1.2 स्वर्ण	1018151	113320	31859	2956	349989	35144	451308	47053
1.3 विशेष आहरण अधिकार	168943	18803	1438	60	13654	634	16062	931
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	43793	4875	664	93	5938	452	7696	658

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसई मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

दिसंबर 31, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 745778 करोड़	2025															
	दिसंबर 16	दिसंबर 17	दिसंबर 18	दिसंबर 19	दिसंबर 20	दिसंबर 21	दिसंबर 22	दिसंबर 23	दिसंबर 24	दिसंबर 25	दिसंबर 26	दिसंबर 27	दिसंबर 28	दिसंबर 29	दिसंबर 30	दिसंबर 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	749702	753560	769235	802513	793144	793822	727905	731306	737986	736573	728880	730032	728308	723732	736794	718893
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	100.5	101.0	103.1	107.6	106.4	106.4	97.6	98.1	99.0	98.8	97.7	97.9	97.7	97.0	98.8	96.4

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	दिसंबर 15, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	308549	-14306	16323	-864	33953	-2245
1.2 बैंकों से उधार	83822	5163	-50437	-28154	-60678	-48170
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	34246	3153	-48029	4330	-46048	9823
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24131870	-128185	1592417	1551269	2276087	2064227
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.5	7.8	6.9	11.5	9.4
2.1.1 मांग	2919952	-93465	165869	221904	290218	310231
2.1.2 मीयादी	21211918	-34720	1426549	1329365	1985869	1753996
2.2 उधारियां	841792	-37408	88992	-73456	104943	-25143
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1283932	228797	206210	222301	109077	140295
3 रिज़र्व बैंक से उधार	26568	24424	-114012	-284898	-47140	-82136
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	828816	-32330	49234	-135473	49316	-241334
4.1 उपलब्ध नकदी	81335	-1535	-5455	-539	-455	-2642
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	747481	-30794	54690	-134934	49771	-238692
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	264856	-236	26067	49055	17513	40463
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	34277	-2150	10111	8440	8018	11811
5.3 बैंकों को अग्रिम	33206	735	-7709	-6298	-14098	-7454
5.4 अन्य आस्तियां	61415	-10667	-53449	-5938	-36048	-559
6 निवेश	6881358	-5114	450389	183430	596429	324411
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.1	7.4	2.7	10.0	4.9
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6880904	-5113	450833	183605	596681	324461
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	454	-1	-444	-176	-252	-50
7 बैंक ऋण	19694564	165121	1154717	1450592	1807401	2107683
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	7.0	8.0	11.5	12.0
7 क.1 खाद्य ऋण	83950	4149	29226	47419	9808	31643
7 क.2 खाद्येतर ऋण	19610614	160972	1125492	1403173	1797594	2076040
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	19318008	160483	1139690	1408157	1768047	2044016
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	89932	1201	6594	14970	16425	22872
7 ख.3 भुनाए गए	251492	3484	10451	30433	22921	43683
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12860	-93	293	-2262	763	-3844
7 ख.5 भुनाए गए	22271	47	-2310	-706	-755	957

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को बैंकलपिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समास पखवाड़ा	2024		2025			
	दिसंबर 13		नवंबर 28		दिसंबर 15	
	1		2		3	
अनुपात						
नकदी-जमाराशि अनुपात		4.85		3.55		3.43
ऋण-जमाराशि अनुपात		79.70		80.50		81.61
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात		72.51		76.54		93.51
निवेश-जमाराशि अनुपात		29.71		28.39		28.52
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात		28.28		11.23		11.82
मद/समास सप्ताह	2024	2025				
	दिसंबर 27	नवंबर 28	दिसंबर 05	दिसंबर 12	दिसंबर 19	दिसंबर 26
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.25	3.25	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.25	5.25	5.25	5.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.00	5.00	5.00	5.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.50	5.50	5.50	5.50
बैंक दर	6.75	5.75	5.50	5.50	5.50	5.50
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत)	6.71	5.45	5.37	5.19	5.37	5.43
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.55	5.36	5.35	5.27	5.28	5.26
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.70	5.52	5.53	5.48	5.50	5.48
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.69	5.53	5.55	5.49	5.50	5.54
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.79	6.55	6.55	6.66	6.67	6.65
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.59	89.46	89.92	90.39	90.20	89.83
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.11	103.63	104.82	106.08	105.68	105.85
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.70	2.15	2.92	3.55	5.05	5.24
3-माह	2.91	2.06	2.65	2.93	3.63	3.52
6-माह	2.61	2.21	2.56	2.84	3.21	3.08

*ग्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।
©10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को बैंकलपिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	दिसंबर 15*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	29058340	-78373	-0.3	1650146	6.6	1771751	6.5	2497696	10.4	2468333	9.3
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3820476	48442	1.3	65962	1.9	189724	5.2	204597	6.3	344237	9.9
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3065541	-92692	-2.9	163905	6.3	225518	7.9	288551	11.7	314748	11.4
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	22057742	-30812	-0.1	1415571	7.5	1355233	6.5	1980398	10.8	1794010	8.9
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114582	-3312	-2.8	4708	5.0	1276	1.1	24149	32.2	15338	15.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8814395	-35240	-0.4	495963	6.5	303570	3.6	722987	9.8	714861	8.8
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1612903	-31254		45882		104798		125756		373808	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7201492	-3986	-0.1	450080	7.0	198772	2.8	597231	9.5	341053	5.0
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20506634	168215	0.8	1143638	6.6	1438505	7.5	1821124	11.0	2160164	11.8
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	11439	-262		-4135		-26806		5041		1168	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20495194	168477	0.8	1147773	6.7	1465311	7.7	1816083	11.0	2158995	11.8
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6688751	143760	2.2	179282	3.2	540224	8.8	423019	7.9	941965	16.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	39721	166	0.4	1988	5.9	3089	8.4	3155	9.8	4301	12.1
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6991160	355275	5.4	170725	3.1	513636	7.9	472590	9.1	1352958	24.0
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2810781	156030	5.9	125986	7.0	663355	30.9	178777	10.3	894662	46.7

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

^: 28 नवंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन के साथ, मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े माह की 15वीं और अंतिम तारीख के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	दिसंबर 15*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4825175	10757	0.2	90116	1.9	-4068	-0.1	281295	6.3	103613	2.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3913689	46817	1.2	60402	1.7	189241	5.1	204189	6.1	341825	9.6
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	796904	-32748	-3.9	25006	2.4	-194584	-19.6	52957	5.3	-253550	-24.1
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114582	-3312	-2.8	4708	5.0	1276	1.1	24149	32.2	15338	15.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1612903	-31254		45882		104798		125756		373808	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1584071	-41163		23739		108611		112224		373677	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-118371	54114		24927		645		-90140		-97151	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-129810	54376		29062		27451		-95181		-98319	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6101703	143760	2.4	143305	2.7	550756	9.9	421302	8.5	717315	13.3
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	39721			1988	5.9	3089	8.4	3155	9.8	4301	12.1
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2810781	156030	5.9	125986	7.0	663355	30.9	178777	10.3	894662	46.7

^: 28 नवंबर, 2025 के संबंध में।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के अंतर्गत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण आरक्षित मुद्रा के संबंध में ये आंकड़े महीने के 15वें एवम अंतिम दिन के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिसंबर 22, 2025	-	-	15507	-	3452	76861	-	-	-	-57902
दिसंबर 23, 2025	-	-	112655	-	412	179720	28	-	-	-66625
दिसंबर 24, 2025	-	-	87347	-	696	120117	357	-	4155	-27562
दिसंबर 25, 2025	-	-	-	-	360	112877	-	-	-	-112517
दिसंबर 26, 2025	-	-	203028	-	504	151649	-	-	-	51883
दिसंबर 27, 2025	-	-	-	-	226	130817	-	-	-	-130591
दिसंबर 28, 2025	-	-	-	-	277	132680	-	-	-	-132403

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अक्टूबर	नवंबर	अक्टूबर	नवंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	196.8	196.5	197.3	197.9	0.3	3.1	0.7
1.1 ग्रामीण	199.5	199.4	199.0	199.6	0.3	2.9	0.1
1.2 शहरी	193.7	193.2	195.4	195.9	0.3	3.2	1.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	144.5	144.5	147.7	148.2	0.3	3.6	2.6
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	156.7	156.4	154.8	155.9	0.7	0.7	-0.3
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	200.6	197.9	188.2	192.1	2.1	3.6	-2.9
3.2 ईंधन और बिजली	148.8	149.9	145.0	146.5	1.0	-3.7	-2.3
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.9	143.1	145.1	145.0	-0.1	0.3	1.3

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा*	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 15, 2025	554968	60187	5.24 - 6.87
दिसंबर 31, 2025	568136	88512	5.25 - 6.87

*बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, जमा प्रमाणपत्रों के लिए डेटा 1 से 15 दिसंबर 2025 और 16 से 31 दिसंबर 2025 के लिए प्रकाशित किया गया है।

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 15, 2025	473476	79654	5.81 - 12.12
दिसंबर 31, 2025	451053	59006	5.99 - 13.53

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	दिसंबर 27, 2024	दिसंबर 19, 2025	दिसंबर 26, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	18396	32335	28949
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	716	9127	1914
3 त्रिपक्षीय रेपो	698889	909662	773807
4 बाजार रेपो	452238	812641	650252
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	8475	11618	14861

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

दिसंबर 26, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	8147	9748	115495	219395
182-दिवसीय	38754	47594	8744	184044
364-दिवसीय	71002	85326	43392	361692
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (दिसंबर 26, 2025 तक)	2024-25 (दिसंबर 27, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (दिसंबर 26, 2025 तक)	2024-25 (दिसंबर 27, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1118000	1089697	1400697	813120	740271	1039275
2. राज्य सरकारें	717903	614147	1073310	472094	409571	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।